

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 407]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 अगस्त 2010—श्रावण 15, शक 1932

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म. प्र.)--462 011

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2010

क्र. 65-04-2010-तीन-2389.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के अनुसरण में, एतद्वारा, नवगठित नगर पंचायत, सुवासरा, जिला मंदसौर के माह जुलाई, 2010 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, सुवासरा, जिला-मंदसौर	अध्यक्ष	—	—	श्रीमती शामुबाई रामसिंह मेहर
		पार्षद	1	एक	सरदारसिंह रामसिंह सौं. राजपूत
		पार्षद	2	दो	रामुबाई मदनसिंह
		पार्षद	3	तीन	पुष्पाबाई दिनेशकुमार गुप्ता
		पार्षद	4	चार	फातेमामबाई पति हकिमुद्दीन बोहरा
		पार्षद	5	पांच	कालुराम ताराचन्द बेरवा
		पार्षद	6	छः	तेजु हीरा बगाड़ा
		पार्षद	7	सात	संगीता पति दिनेश मेहर
		पार्षद	8	आठ	मदनलाल प्रभूलाल सोनी
		पार्षद	9	नौ	सीमा विरेन्द्र कुमार जैन
		पार्षद	10	दस	अशोककुमार पुरनमल
		पार्षद	11	ग्यारह	आनन्द पिता सदाशिव

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		पार्षद	12	बारह	मेहराज बी मोहम्मद अकरम मंसूरी
		पार्षद	13	तेरह	रेहाना पति सईदखॉ पठान
		पार्षद	14	चौदह	सुगनबाई अर्जुनसिंह मेहर
		पार्षद	15	पन्द्रह	मोहनलाल भग्गाजी मेहर

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(रजनी उड़के)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2010

क्र. 65-04-2010-तीन-2390.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के अनुसरण में, एतद्वारा, नवगठित नगर पंचायत, लांजी, जिला बालाघाट के माह जुलाई, 2010 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्र.	नगर पंचायत का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, लांजी, जिला-बालाघाट	अध्यक्ष	—	—	वनिता युगेश रामटेककर
		पार्षद	1	एक	ललीता चमरूलाल पन्ने
		पार्षद	2	दो	अमृता रमेश मुरकुटे
		पार्षद	3	तीन	श्रीमती विभा अनिल तिवारी
		पार्षद	4	चार	संजय रामजी खोब्रागडे
		पार्षद	5	पांच	लीलाधर डोलस
		पार्षद	6	छः	सुभाष सीताराम अग्रवल
		पार्षद	7	सात	कमलेश जुमडे
		पार्षद	8	आठ	ताराचन्द मोहनलाल कालबेले
		पार्षद	9	नौ	पूजा संतोष जैतवार
		पार्षद	10	दस	राजकुमारी S/o रामभाऊ
		पार्षद	11	ग्यारह	रेखा अरूण पशीने
		पार्षद	12	बारह	रेखा जवाहरलाल पिल्लोरे
		पार्षद	13	तेरह	सुधा हिम्मतलाल किरमें
		पार्षद	14	चौदह	कारूलाल ढाडूजी
		पार्षद	15	पन्द्रह	सेवकराम पितमा हीराराव रामटेककर

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(रजनी उड़के)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.